

REGISTERED OFFICE :  
BHIKAJI CAMA PLACE, M.G. MARG,  
NEW DELHI - 110066  
TELEPHONE : 26791234  
FAX : 26791033  
CIN : L55101DL1980PLC011037  
Website : www.asianhotelsnorth.com  
E-mail : investorrelations@ahlnorth.com



## ASIAN HOTELS (NORTH) LIMITED

AHL/CS/1013/2022  
14<sup>th</sup> February, 2022

**Corporate Services Department**  
**BSE Ltd.**  
**Phiroze Jeejeebhoy Towers**  
**Dalal Street**  
**Mumbai- 400 001**

**Listing Department**  
**National Stock Exchange of India Ltd.**  
**Exchange Plaza, 5<sup>th</sup> Floor**  
**Plot No. C/1, G Block**  
**Bandra (E), Mumbai – 400 051**

**Scrip Code/Scrip ID:**  
**500023/ASIANHOTNR**

**Scrip Code / Symbol: 233/ASIANHOTNR**

Dear Sirs,

**Subject: Submission of the copies of News Paper publication of Extracts of Financial Results for the third quarter ended on 31<sup>st</sup> December, 2021**

Pursuant to Regulation 47 of the (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find attached herewith copies each of Business Standard (English daily) and Business Standard (Hindi daily) both dated 14<sup>th</sup> February, 2022 in which Extracts of Financial Results of the Company for the third quarter ended on 31<sup>st</sup> December, 2021, have been published.

This is for your information and dissemination.

Thanking you,  
Yours faithfully,  
For **ASIAN HOTELS (NORTH) LIMITED**

**SAUMYA GOEL**  
**COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER**



**Encl: as above**

**REGILARE HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD.**  
 Corporate Office: 8th Floor, Max Home Block A, Dhya Bhumi, Okhla Phase 3, Okhla Industrial Estate, New Delhi-110020  
 Central Office: A-3/45, Club 125, Tower B, 2nd Floor, Sec-125, Noida-201301

**AUCTION/SALE NOTICE**  
 Notice is hereby given for conducting Auction and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 (SARFESI ACT) and Rules 8(a) & 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 of the immovable properties, mortgaged to the M/s Regilare Housing Development Finance Corporation Limited (hereinafter referred to as the "RHDFCL"). Whereas the below mentioned borrower failed to repay the loan amount to the bank within 60 days from the date of the notice mentioned in table issued by its authorized officer under section 13(c) of the SARFESI ACT 2002.

Borrower's Name & Address	Notice date and Possession date	Description of the property	Reserve Price EMD
1. Raghukumar Raghavan Nair S/O Raghavan Nair, R/o 92 Ward No 2 Mehrauli, Delhi-110030. Also At: 68-ODA Flats Pocket-6, Dwarka Sector-12, Delhi. Also At: Khata E-4/22 Okhla Industrial Area Phase II, New Delhi, Delhi-110020. & Ramya Nair W/o Raghukumar R, R/o 92 Ward No 2 Mehrauli, Delhi-110030. R/o 92 Ward No 2 Mehrauli, Delhi-110030. Also At: Chhatravli House, Kattur P.O., Chennai, Palamnam Kattur-605050. Also At: Kanak Durga Basti Vikash Kendra Sec-12, R.K. Puram, New Delhi-110022	Notice issued U/S 13(c) of SARFESI ACT 2002 on 28.04.2021 and POSSESSION taken through Authorized Officer on 22.10.2021 under the provision of Section 14(5e) 13 (4) of the SARFESI ACT 2002	All that piece and parcel of property bearing Flat No.5 on 2nd floor, Measuring 450 Sq. Ft. on Property No.178-31/1 Ward No.2, in Khaza No.1151/3, M/s. Situated in the Abadi of Lal Dora, Village Mehrauli New Delhi 110030	Rs. 14,17,500/- 1,41,750/-
2. Manish Anand S/o Rajender Anand R/o F-191, Third Floor, Sudarshan Park, Delhi-110015. Also At: Paris Tour And Travels, F-191, Third Floor, Sudarshan Park, Delhi-110015 & Meenu Anand W/o Manish Anand R/o F-191, Third Floor, Sudarshan Park, Delhi-110015. Also At: Paris Cosmetics Beauty Parlour, C-30, Sudarshan Park, Delhi-110015	Notice issued U/S 13(c) of SARFESI ACT 2002 on 28.04.2021 and POSSESSION taken through Authorized Officer on 27.11.2021 under the provision of Section 14(5e) 13 (4) of the SARFESI ACT 2002	All that piece and parcel of property bearing Plot No.F-101 (New, WC-921 (old), Land Measuring 92 Sq. Yds. Part of Khaza No.652 & 653, Situated in the Area of Village Basai Darapur, Colony Known As Sudarshan Park, New Delhi, (LHS Fate Of 3rd Floor With Its Roof Rights) 110015	Rs. 13,14,000/- 1,31,400/-
3. Vidhul Mandal S/o Kiran Kant Mandal & Parth Mandal W/o Vidhul Mandal, Both R/o H.No.72 A, Third Floor, Sunder Park, Shastri Nagar, Delhi-110031. Also At: Property Bearing No.72-A, Third Floor, Khaza No.39/2, 39/3/1 & 39/3/2, Sunder Park, Shastri Nagar, Village Khurji, Khaz, Illaga Shahrada, Delhi-110031	Notice issued U/S 13(c) of SARFESI ACT 2002 on 17.08.2020 and POSSESSION taken through Authorized Officer on 28.10.2021 under the provision of Section 14(5c) 13 (4) of the SARFESI ACT 2002	All that piece and parcel of property bearing Plot No.F-101 (New, WC-921 (old), Land Measuring 92 Sq. Yds. Part of Khaza No.652 & 653, Situated in the Area of Village Basai Darapur, Colony Known As Sudarshan Park, New Delhi, (LHS Fate Of 3rd Floor With Its Roof Rights) 110015	Rs. 12,03,200/- 1,20,320/-

(A) Last date for submission of bids 28.03.2022 at the Office of M/s Regilare Housing Development Finance Corporation Ltd., 2nd Floor, Club 125, A-3/45, Sector 125, Noida-201301  
 (B) Time & Place of opening of bid: 28.03.2022 at 11.00 AM at above said address.

**TERMS AND CONDITIONS OF SALE:**  
 1) Full description of the above property is available with Authorized Officer. The properties/documents can be inspected after fixing date and time with the Authorized Officer.  
 2) The intending bidders should send their bids to Authorized Officer, at the above said address, in a sealed cover scribing as "Bid for auction/sale of property of Borrowers name" along with EMD by demand draft drawn in favour of M/s Regilare Housing Development Finance Corporation Limited payable at Delhi on or before 28.03.2022 at 05:00 PM.  
 3) The sealed bids will be opened on 28.03.2022 and thereafter the eligible bidders may be given an opportunity at the discretion of the Authorized officer to participate in inter-se bidding to enhance the offer price.  
 4) The successful bidder is required to deposit 25% of bid amount (inclusive of EMD), on the same day by DD/ Cheque drawn in favour of "M/s Regilare Housing Development Finance Corporation Limited" payable at Delhi and the balance amount shall be paid by the successful bidder within 15 days from the date of confirmation of sale by Bank. The EMD as well as Sale Price paid by the interested bidders shall carry no interest. The deposit of EMD or 25% of sale price, whatever the case may be shall be forfeited by the "RHDFCL", if the successful bidder fails to adhere to the terms of sale or commits any default.  
 5) The successful bidder shall bear all expenses including statutory duties/taxes/fees etc. Municipal Corporation or any other authorities and fees payable to stamp duty, registration fee etc. for registration of the Sale Certificate.  
 6) Bank does not take any responsibility to procure a permission/NOC from any Authority or under any other law in force in respect of property offered or any other dues i.e. outstanding water/electricity dues, property tax or other charges if any.  
 7) The Authorized Officer has absolute right to accept or reject any or all of the offers/bids or adjourn/cancel the sale without assigning any reason or modify any terms of sale without any prior notice.  
 8) To the best of his knowledge and information, the "RHDFCL" is not aware of any encumbrances on the properties to be sold except of the "RHDFCL". Interested parties should make their own assessment of the properties to their satisfaction. Bank does not in any way guarantee or makes any representation with regard to the fitness of the aforesaid properties.  
 9. For any other information, Mr. Pawan Gaur, Mob No. 9953815004, Mr. Iqar Khan, Mob. No. 9999052906 may be contacted at the above address.  
**STANDARD 90 DAYS NOTICE UNDER RULE 8(2), 8(a) & 9(1) OF THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES 2002.**  
 The Borrower/Co-Borrowers/quantors/mortgagors are hereby notified to pay the sum as mentioned above along, with up to date interest and ancillary expenses before auction, falling which the auction of mortgaged property mentioned above shall take place and balance dues if any shall be recovered with interest/cost

Place: Delhi, Date: 14.02.2022  
 M/s Regilare Housing Development Finance Corporation Limited  
 Authorized Officer  
 Note: Amount paid if any after issuance of SARFESI Demand Notice, would be reckoned for ascertaining the dues payable at the time of realization/settlement

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER MINOR IRRIGATION DIVISION HAZARIBAG.**  
**Short e-Procurement Tender Notice**  
 Letter no- 205 Tender Reference No.- WRD/MID/HAZARIBAG/FZ-19/2021-22 Date: 12.02.2022

1. Name of the work	Construction of Check Dam on Pakwa Nala (Check Dam No.02) Block - Baraniganj, Dist - Hazaribag.
2. Estimated Cost (Rs.)	Rs. 1,05,51,319.00
3. Time of Completion	11 Months
4. Date of Publication of Tender on website	18.02.2022 at 1:00 P.M
5. Last date/Time for Submission of bids	24.02.2022 up to 5:00 P.M
6. Date of opening of e-tender	26.02.2022 at 12:00 P.M
7. Name and address of office issuing tender	Executive Engineer, Minor Irrigation Division, Hazaribag
8(a) Contact no. of Procurement officer (b) E-mail of e-Procurement officer	05545-270485, eemid@b-cemr-jr@nic.in
9. Helpline number of e-Procurement cell	0555-2214784
10. Last Date of receipt of bids, fee, security and other documents.	25.02.2022 up to 5:00 P.M. at Office of Executive Engineer, Minor Irrigation Division, Hazaribag.

Note: Only e-Tender will be accepted.  
 Further details can be seen on website <http://barkhandtenders.gov.in>  
 PR 263800 Minor Irrigation/21-22/02

**SBFC SBFC Finance Private Limited**  
 (erstwhile Small Business Finance India Private Limited)  
 Registered Office: Unit No. 103, First Floor, C&S Square, Sangam Complex, Village Chakala, Andheri, Kurla Road, Andheri (East), Mumbai-400059.

**POSSESSION NOTICE (As per Rule 8(2) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002)**  
 Whereas the undersigned being the Authorized Officer of SBFC Finance Private Limited under the Securitization, Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of the powers conferred on section 13(12) read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued Demand Notice upon the Borrowers/Co-Borrowers mentioned below, to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice.  
 The Borrower/Co-Borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower/Co-Borrowers and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act and Rule 8 of the said rules on the below-mentioned dates.  
 The Borrower/Co-Borrowers in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of SBFC Finance Private Limited.

Name and Address of Borrowers & Date of Demand Notice	Description of Property(ies) & Date of Possession	Amount demanded in Possession Notice (Rs.)
1. SHEETAL GAUR, H No. Q 512, DF Phase 2, Gurgaon, Haryana - 122002, C/O PRADEEP, 206, Palika Bazar, Connaught Place, New Delhi, Delhi-1100018	All The Piece And Parcel Of Property Bearing Flat No. 61 On 1st And 2nd Floor, Duplex Ggn. Admeasuring 185.43 Sq.Mtrs. i.e. 1996 Sq.Ft. Block E On Plot Admeasuring 259 Sq. Mtrs. in Sushant Home Schemes, Known As "Sushant Lok-I" Situated in And Around Village Sarhau, Chakrapur, Sakhotra, Khatnai And Wazirabad District Gurgaon, Haryana 122002 And	Rs.12473419/- (Rupees One Crore Twenty Four Lakhs)
2. Naresh Gaur, & 5. Ramesh Gaur, 3. No To No. 5 Are Having Their Address At Q-5/12 DF City Phase-1 Gurgaon, Haryana - 122002	Seventy Three Thousand Four Hundred Ninety Nine Only) as on 29th May 2021	

The Borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.  
 Place: Gurgaon (Authorized Officer) Sd/-  
 Dated: 14th February 2022 SBFC Finance Private Limited.

**ASPIRA PATHLAB & DIAGNOSTICS LIMITED**  
 Reg. Office : Flat No. 2, R.D.Shah Building, Shradhanand Road, Opp. Railway Station, Ghatkopar (W), Mumbai -400086 Tel No: 71975656 ;  
 email id: [info@aspiradiagnostics.com](mailto:info@aspiradiagnostics.com) ; website: [www.aspiradiagnostics.com](http://www.aspiradiagnostics.com)  
**Extracts of Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine Months ended December 31, 2021 (Rupees in Lakhs)**

Sr. No	Particulars	Quarter Ended		Nine Months ended		Quarter Ended	
		31/12/2021 (Unaudited)	31/12/2021 (Unaudited)	31/12/2021 (Unaudited)	31/12/2021 (Unaudited)	31/12/2020 (Unaudited)	31/12/2020 (Unaudited)
1.	Total income from operations	472.86	1410.30	418.61			
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	86.94	301.74	25.54			
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	86.94	301.74	25.54			
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	86.94	301.74	25.54			
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising profit/loss for the period(after tax) and other Comprehensive Income(after tax))	86.94	301.74	25.54			
6.	Equity Share Capital	1029.30	1029.30	929.30			
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of previous year	-	-	-			
8.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)	0.84	2.93	0.27			
	Diluted:	0.84	2.93	0.27			

Note:  
 a. The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results for the Quarter ended December 31, 2021, filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosures Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the Quarter and Nine Months ended December 31, 2021 is available on the websites of the Stock Exchange(s) and the company's website: [www.aspiradiagnostics.com](http://www.aspiradiagnostics.com).  
 b. The above result has been reviewed by the Audit Committee and approved by Board of Directors at their meeting held on February 12, 2022  
 For and on behalf of the Board  
 For Aspira Pathlab & Diagnostics Limited  
 Sd/- Pankaj Shah  
 (Managing Director)  
 DIN: - 02958624  
 Date: February 12, 2022

**POSSESSION NOTICE (For Immovable Property)**  
 Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the Union Bank of India, Pratnagar (E-AB) Branch, under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (SARFESI ACT) and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 issued Demand Notice dated 16.10.2021 calling upon Mrs. Sumitra Padidar to repay the amount mentioned in the Notice being Rs. 9,55,863.86 (Rupees Nine Lakh Fifty Five Thousand Six Hundred Thirty Three Rs Six Paise Only) within 60 days from the date of receipt of the said notice.  
 The Borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and public in general that the undersigned has taken symbolic possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Sub Section 4 of Section 13 of the Act read with rule 8 of the said rules on the 08th day of Feb, 2022.  
 The Borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Union Bank of India for an amount being Rs. 9,55,863.86 (Rupees Nine Lakh Fifty Five Thousand Six Hundred Thirty Three Rs Six Paise Only) as on 08.02.2022 and costs thereon.  
 The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of the time available, to redeem the secured assets.  
**DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY**  
 Admeasuring 22'10" x 54'00" feet, situated at Araji No. 185, gram Pranjali, Gram Panchayat: Barhila, Jaisalai and dist. Pratnagar Rajasthan-312223 in the name of Sumitra Padidar. Boundaries: North: House of Sh. Anandji, South: House of Sh. Bharat, East: House of Sh. Laxmi Narayan Ji, West: House of Sh. Ram Prasad Ji  
 Date: 08.02.2022, Place: PRATNAGAR Authorized Officer, Union Bank of India

**ATN INTERNATIONAL LIMITED**  
 Reg. Office : 10, Princep Street, 2nd Floor, Kolkata - 700072  
 Email : [atninternationalindia@gmail.com](mailto:atninternationalindia@gmail.com), website : [www.atninternational.in](http://www.atninternational.in)  
 Phone No. 93-40022880, Fax: 91-33-22379903  
 CIN: L26999WB1983PLC008793

**EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 31st DECEMBER 2021 (Rs. in Lacs)**

Sl.	Particulars	Quarter Ended		Nine Months ended		Quarter Ended	
		31/12/2021 (Unaudited)	31/12/2021 (Unaudited)	31/12/2021 (Unaudited)	31/12/2021 (Unaudited)	31/12/2020 (Unaudited)	31/12/2020 (Unaudited)
1.	Total income from Operations	1.27	1.20	3.73			
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(6.10)	(16.26)	(29.61)			
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(6.10)	(16.26)	(29.61)			
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(6.10)	(16.26)	(29.61)			
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / Loss for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	-	-	-			
6.	Equity Share Capital	1578.00	1578.00	1578.00			
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-			
8.	Earnings Per Share (of Rs. 4/- each) (for continuing and discontinued operations)	0.02	0.04	0.07			
	Diluted:	0.02	0.04	0.07			

Note: a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the Stock Exchanges website i.e. [www.sebiindia.com](http://www.sebiindia.com) and [www.cse-india.com](http://www.cse-india.com) and on the Company's website: [www.atninternational.in](http://www.atninternational.in)  
 b) The impact on net profit/loss, total comprehensive income or any other relevant financial item (due to change) in accounting policies shall be disclosed by means of footnote.  
 c) Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules/AS Rules, whichever is applicable. By order of the Board  
 For ATN INTERNATIONAL LIMITED  
 Sd/- Sandeep Kumar Jain  
 Managing Director  
 DIN No. 00174235  
 Place : Kolkata  
 Date : 12th February, 2022

**BLUE CHIP INDIA LIMITED**  
 Reg. Office: 10 Princep Street, 2nd Floor, Kolkata - 700072  
 E: [bluechipindia@gmail.com](mailto:bluechipindia@gmail.com), W: [www.bluechipindia.com](http://www.bluechipindia.com)  
 P: 91-33-40022880, F: 91-33-22379903  
 CIN: L26999WB1983PLC008793

**EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 31st DECEMBER 2021 (Rs. in Lacs)**

Sl.	Particulars	Quarter Ended		Nine Months ended		Quarter Ended	
		31/12/2021 (Unaudited)	31/12/2021 (Unaudited)	31/12/2021 (Unaudited)	31/12/2021 (Unaudited)	31/12/2020 (Unaudited)	31/12/2020 (Unaudited)
1.	Total income from Operations	0.10	1.03	1.24			
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(3.32)	(11.75)	(17.96)			
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(3.32)	(11.75)	(17.96)			
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(3.32)	(11.75)	(17.96)			
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / Loss for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	(7.30)	185.85	172.25			
6.	Equity Share Capital	1108.09	1108.09	1108.09			
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-			
8.	Earnings Per Share (of Rs. 2/- each) (for continuing and discontinued operations)	0.01	0.01	0.03			
	Diluted:	0.01	0.01	0.03			

Note: a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosures Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the Stock Exchanges website i.e. [www.sebiindia.com](http://www.sebiindia.com) and [www.cse-india.com](http://www.cse-india.com) and on the Company's website: [www.bluechipindia.com](http://www.bluechipindia.com)  
 b) The impact on net profit/loss, total comprehensive income or any other relevant financial item (due to change) in accounting policies shall be disclosed by means of footnote.  
 c) Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules/AS Rules, whichever is applicable. By order of the Board  
 For BLUE CHIP INDIA LIMITED  
 Sd/- Anshu Jain  
 Managing Director  
 DIN: 00174557  
 Place : Kolkata  
 Date : 11th February, 2022

**ASIAN HOTELS (NORTH) LIMITED**  
 (Owners of Hotel Hyatt Regency Delhi)  
 CIN: L55101DL1980PLC011037, Registered Office: Bhikaji Cama Place, M.G. Marg, New Delhi-110 066 Tel: 011 66771225/1226, Fax: 011 26791033  
 Email: [investorrelations@ahnorth.com](mailto:investorrelations@ahnorth.com); Website: [www.asianhotelsnorth.com](http://www.asianhotelsnorth.com)

**EXTRACTS OF STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2021 (Rs. in Lakhs except for EPS)**

S. No.	Particulars	Standalone				Consolidated							
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
		Three months ended 31/12/2021	Three months ended 30/09/2021	Corresponding three months ended 31/12/2020	Nine months ended 31/12/2021	Nine months ended 31/12/2020	Year ended 31/03/2021	Three months ended 31/12/2021	Three months ended 30/09/2021	Corresponding three months ended 31/12/2020	Nine months ended 31/12/2021	Nine months ended 31/12/2020	Year ended 31/03/2021
1.	Total Revenue	4,758.43	3,708.90	2,250.63	9,765.23	4,320.69	7,444.97	4,758.43	3,708.90	2,293.07	9,765.23	4,363.13	7,725.93
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, exceptional items)	(2,029.78)	(2,239.59)	(1,317.57)	(8,277.78)	(8,969.14)	(12,598.10)	(2,029.32)	(2,748.33)	(1,230.78)	(8,281.13)	(8,748.65)	(12,582.10)
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional items)	(2,029.78)	(2,239.59)	(1,317.57)	(8,277.78)	(8,969.14)	(6,9512.82)	(2,486.63)	(34,381.80)	(1,230.78)	(8,281.13)	(8,748.65)	(89,496.82)
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional items)	(2,029.78)	(2,239.59)	(1,317.57)	(8,277.78)	(7,952.34)	(6,9513.59)	(2,486.63)	(34,381.80)	(1,230.78)	(8,281.13)	(7,731.85)	(89,497.59)
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	(1,528.65)	(2,239.59)	(1,317.57)	(7,776.65)	(7,952.34)	(27,158.62)	(1,965.50)	(34,381.80)	(1,230.78)	(8,365.38)	(7,731.85)	(27,142.62)
6.	Paid-up equity share capital (Face Value - Rs.10/- each)	1,945.33	1,945.33	1,945.33	1,945.33	1,945.33	1,945.33	1,945.33	1,945.33	1,945.33	1,945.33	1,945.33	1,945.33
7.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (not annualized):	(10.43)	(11.51)	(6.77)	(42.55)	(40.88)	(357.34)	(12.78)	(176.74)	(6.33)	(210.18)	(39.75)	(357.25)
	Diluted (in Rs.)	(10.43)	(11.51)	(6.77)	(42.55)	(40.88)	(357.34)	(12.78)	(176.74)	(6.33)	(210.18)	(39.75)	(357.25)

Note:  
 1. The above is an extract of the detailed format of quarter and nine months ended December 31, 2021 financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015. These financial results were reviewed by the Audit Committee, and were approved by the Board of Directors, in their respective meetings held on February 12, 2022. The full text of the aforesaid results is available on the Company's website: <http://asianhotelsnorth.com> and on the Stock Exchange websites: [www.sebiindia.com](http://www.sebiindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com).  
 By order of the Board of Directors  
 Asian Hotels (North) Limited  
 Anshu Jain  
 Managing Director  
 DIN - 12731300  
 Place: New Delhi  
 Date: 12.02.2022

**APPENDIX IV (See rule 8 (1) POSSESSION NOTICE (For Immovable Property)**  
 Whereas,  
 The undersigned being the Authorized Officer of the INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED (CIN:L69222DL2009PLC136029) under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated 10.06.2020 calling upon the Borrowers PRAHLAD VISHWAKARMA AND APARNA VISHWAKARMA to repay the amount mentioned in the Notice being Rs. 9,42,918/- (Rupees Nine Lakh Forty Two Thousand Nine Hundred Eighty Eight Only) against Loan Account No. HILDCP900210364 as on 05.06.2020 and interest thereon within 60 days from the date of receipt of the said notice.  
 The Borrower having failed to repay the amount, Notice is hereby given to the Borrower and the public in general that the undersigned has taken symbolic possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section 4 of Section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on 09.02.2022.  
 The Borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the INDIABULLS HOUSING

